



## प्रेस विज्ञप्ति

### बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 85वें व्यवसाय प्रारंभ दिवस का आयोजन

पुणे दिनांक 8 फरवरी, 2020 : 8 फरवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 85वां व्यवसाय प्रारंभ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिनांक 7 फरवरी, 2020 को बैंक की सभी शाखाओं, अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय स्तर पर व्यवसाय प्रारंभ दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय “लोकमंगल लॉन” में आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक, श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधकगण, अंचल प्रबंधक, पुणे शहर अंचल, पुणे पूर्व अंचल, पुणे पश्चिम अंचल और बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

85वें व्यवसाय प्रारंभ दिवस के अवसर पर बैंक ने बेहतर सिबिल स्कोर वाले अपने नए वेतनभोगी श्रेणी के आवास ऋण उधारकर्ताओं को आवास ऋण में 15 आधार अंकों की कमी का विशेष उपहार दिया है। 8.35% की वर्तमान दर को कम करके 8.20% और 8.45% की मौजूदा दर को कम करके 8.30% किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेपो से जुड़ी उधार दरों पर आवास ऋण उपलब्ध करता है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री ए. एस. राजीव ने कहा कि महाबैंक के संस्थापकों द्वारा 85 वर्ष पूर्व लगाया गया बीज आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। बैंक द्वारा आज अपने ग्राहकों को पूर्ण प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक के 2.7 करोड़ ग्राहकों द्वारा दर्शाया गया विश्वास ही बैंक की वास्तविक पूंजी है।

श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि ‘व्यवसाय प्रारंभ दिवस’ को ‘व्यवसाय प्रतिबद्धता दिवस’ के रूप में मनाया जाना चाहिए। बैंक अपने ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। साथ ही, ग्राहकों की बदलती हुई अपेक्षा के अनुसार ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया।

श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी परिवेश में कठिन परिश्रम के साथ-साथ त्वरित और विनम्र ग्राहक सेवा की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक विभिन्न ग्राहक अनुकूल और प्रतिस्पर्धी उत्पाद के माध्यम से ग्राहकों को प्रसन्नचित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

समारोह का शुभारंभ संस्थापकों के फोटों पर माल्यार्पण और पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में ‘प्रोडक्ट इनफॉर्मेशन हैंडबुक’ का भी विमोचन किया गया। बैंक के कर्मचारियों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे गायन, नृत्य, मिमिक्री, लोककला, प्रहसन इत्यादि के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया।



**फोटो कैप्शन -** श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक और श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक बैंक के 85वें व्यवसाय प्रारंभ दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में “प्रॉडक्ट इनफॉर्मेशन हैंडबुक” का विमोचन करते हुए।